

बी0जे0पी जैसे दलों ने देवयानी के साथ हुये अमरीकी सुलूक को कैसे बर्दाश्त किया : आजम खान

By : INVC Team Published On : 20 Dec, 2013 07:00 AM IST

✘आई एन वी सी,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने अमेरिका में तैनात भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के साथ अमरीकी प्रशासन द्वारा मर्यादाओं से परे किये गये गंदे व्यवहार की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुये इस बात पर बेहद अफ़सोस ज़ाहिर किया कि भारतीय संस्कृति व हिन्दुत्व के अलमबरदार बी0जे0पी जैसे दलों ने देवयानी के साथ हुये अमरीकी सुलूक को कैसे बर्दाश्त किया, किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि बी0एच0पी0 जैसा संगठन बिल्कुल खामोश रहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की यह चुप्पी एक हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि जब इन अलमबरदारों को कोई ग़ैरत नहीं है तो फिर अमरीका से किसी मर्यादित आचरण की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। श्री आजम खाँ ने कहा कि अमरीका एक ऐसा देश है जो वर्षों से खासकर हिन्दुस्तानियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करता आ रहा है, यहाँ तक कि उसने इस देश के अति सम्मानित व्यक्तियों को भी नहीं बख़्शा है। अमेरिका पहुंचने पर खुद उनके साथ भी ऐसा ही ज़िल्लतभरा व्यवहार किया गया था, जिसके खिलाफ़ उन्होंने वहीं से फौरन विरोध किया था और इस शर्मनाम व अपमान भरे व्यवहार पर अपना सख्त रोष दर्ज कराया था, जब कि बहुत से भारतीय जो इस दुव्र्यवहार के शिकार हुये कई वर्षों बाद इसे उजागर किया। श्री आजम खाँ ने देवयानी को आने वाले लोकसभा चुनाव में रामपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफ़र देते हुये कहा कि देवयानी अगर चाहें तो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर उनके चुनाव लड़ने के ऑफ़र को स्वीकर करें क्योंकि लोकसभा सदस्य के रूप में वह संसद में अमरीका के खिलाफ़ अपना पुरज़ोर विरोध दर्ज करा सकती हैं।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/बी0जे0पी-जैसे-दलों-ने-देवया/>